

प्रेस नोट दिनांक 15-03-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

ऑपरेशन प्रहार के तहत चोरी के अपराध में संलिप्त 02 अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध/अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिगत चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत आज दिनांक 15-03-2023 को चोरी के अपराध में संलिप्त 02 नफर अभियुक्त के विरुद्ध जनपद के थाना ढेबरूआ व कपिलवस्तु पर धारा (3)3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की कार्यवाही की गयी।

निम्नलिखित अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी-

1- सहराज गौतम पुत्र इन्द्रसेन उम्र 20 वर्ष निवासी बैरिहवा जब्बार थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

2- इरफान अहमद उर्फ लाला पुत्र नसीम अहमद उम्र 30 वर्ष निवासी बिहरी थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट- थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 15.03.2023

अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा थाना पथरा बाजार का किया गया वार्षिक निरीक्षण।

आज दिनांक 15.03.2023 को श्री सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा थाना पथरा बाजार का वर्ष 2022 का वार्षिक निरीक्षण किया गया। वार्षिक निरीक्षण के क्रम में थाने की साफ सफाई मेस व बैरकों की साफ सफाई, महिला हेल्प डेस्क, तथा थाने के सभी रजिस्टरो का भौतिक सत्यापन किया गया व शस्त्रों आदि के संबंध में जानकारी ली गई तथा रख रखाव आदि के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही साथ सभी विवेचक गण से विवेचना के क्रम में व विवेचनात्मक प्रगति की जानकारी ली गई व आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। थाने के टॉप 10 अपराधियों के बारे में भी जानकारी ली गई व आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

प्रेस नोट दिनांक 15.03.2023 थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर

गुम हुए बालक को इटवा पुलिस द्वारा आधे घंटे में किया गया बरामद

आज दिनांक 15.03.2023 को आबिदा पत्नी अजहरुद्दीन निवासी झकहिया थाना कठेला समयमाता जनपद सिद्धार्थ नगर द्वारा सूचना दिया गया कि उनका पुत्र हुबैब इनामुद्दीन उम्र करीब 05 वर्ष जो इटवा बाजार में अपनी मां के साथ बाजार आया था, कि इटवा बाजार से अचानक गुम हो गया, जिसकी सूचना थाना स्थानीय पर प्राप्त हुई, उक्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना स्थानीय से उ0नि0 राजेश कुमार पांडे कांस्टेबल राकेश मौर्य कांस्टेबल राधेश्याम के नेतृत्व में टीम गठित कर तत्काल मौके पर रवाना किया गया। उक्त टीम के द्वारा अथक प्रयास से आसपास के क्षेत्रों में खोजा गया। बालक को कस्बे के पास तहसील रोड पर लावारिस अवस्था में भटकते हुए पाया गया। बरामदगी कर परिजनों को बुलाकर उनको सुपुर्द किया गया। परिजनों द्वारा पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा की गई तथा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15-03-2023

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा माह फरवरी, 2023 हेतु कराए गए पब्लिक अप्रूवल रेटिंग के तहत कराये गये वोटिंग में सिद्धार्थनगर पुलिस को 3057 लोगों द्वारा दिया अपना फीडबैक, जनपद सिद्धार्थनगर को बस्ती परिक्षेत्र में मिला द्वितीय स्थान।

अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार द्वारा कराये गए पब्लिक अप्रूवल रेटिंग /सर्वेक्षण के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस की कार्य प्रणाली (ट्विटर, डायरेक्ट पोल, यूपी0-112, आईजीआरएस0, पासपोर्ट और चरित्र सत्यापन एवं जनपद के समस्त थानों पर पंजीकृत अभियोगों (प्रथम सूचना रिपोर्ट/एनसीआर) के सम्बन्ध में पूर्व में कराये वोटिंग में जनपद सिद्धार्थनगर को डायरेक्ट पोल पर 1590, ट्वीटर पोल पर 418, यूपी-112 के पोल पर 397, वादियों द्वारा पंजीकृत कराए गए एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0 पर 176, पासपोर्ट और चरित्र प्रमाणपत्र में 331 व आई0जी0आर0एस0 में 105, व्यक्ति कुल 3,057 व्यक्तियों द्वारा अपना अपना फीड बैक दिया गया। सिद्धार्थनगर पुलिस के कार्यों का डायरेक्ट पोल कुल फीडबैक का 97.20% लोगों द्वारा अतिउत्तम, ट्वीटर पोल पर कुल फीड बैक का 73.0%, एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0 में कुल फीडबैक का 96.0%, यूपी-112 के कुल फीड बैक का 76.9%, पासपोर्ट और चरित्र प्रमाणपत्र में 95.40% व आई0जी0आर0एस0 में कुल फीडबैक का 54.2% अतिउत्तम वोटिंग प्रतिशत रहा। अपना बहुमुल्य फीडबैक/वोट देने हेतु समस्त जनपद वासियों का सिद्धार्थनगर पुलिस धन्यवाद ज्ञापित करती है।